TEL.: 26851998 / 40589888 FAX: 26852335

## K K Fincorp Limited

CIN: L65990MH1981PLC023696

Regd. Off.: Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai – 400 063 Email:kkii\_igrd@remigroup.com Website: www.remigroup.com

March 27, 2024

To

The General Manager – Dept. Corporate Services, BSE Limited, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 503669

Sub: Copy of Newspaper advertisement

Dear Sir/ Madam

In compliance with Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended (the "**Delisting Regulations**") and also in compliance with the Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023, as amended, we are enclosing herewith a copy of Public Notice in relation to the Delisting Offer which has been published today in below newspapers:

Newspaper	Language	Edition		
The Financial Express	English	All Editions		
Jansatta	Hindi	All Editions		
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai Edition		

We request you to kindly take above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For K K Fincorp Limited

Shiv Kumar Sharma Whole Time Director

जळगाव, दि. २६: अवैधरित्या आहे. यावल तालुक्यातील डिंक कादून चोरट्या मार्गाने दुचाकीवरून वाहतुक करतांना वन विभागाच्या गरती पथकाने तालुक्यातील सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या मोहमांडली रूईखेडा मार्गावरील रात्रीच्या सुमारास कारवाई केली. या कारवाईत मुद्देमालासह दुचाकी जप्त करण्यात आली

सातपुडा पर्वताच्या अतिदुर्गम

क्षेत्रातील मोहमांडली ते रूईखेडा

वनविभागाचे उपवनसंरक्षक

जमीर शेख व सहाय्यक

वनसंरक्षक प्रथमेश हडपे व

यावल पूर्व विभागाचे वनपरिक्षेत्र

अधिकारी स्वप्नीन फंटागरे

प्रकाश

कष्णा

गोवर्धन

**MAHA**TRANSCO

DMB/e-Tender -16/2024-25

RFx No.-7000030313

Including all taxes

31.03.2024, 23:59Hrs.

23:59Hrs.

mahatransco.in

सीआयएन/एलएलपी क्र.

नोंदणीकत कार्यालयाचा पत्ताः

त्या ठिकाणी असलेल्या स्थायी मालमत्तेचे तपशील

मुख्य उत्पादने/सेवेच्या स्थापित क्षमता

मागील वित्तीय वर्षात विक्री मुख

उत्पादने/सेवेचे परिमान व मुल्य

धनकोंची यादी, प्रक्रियेच्या पुढील

अंतिम उपलब्ध संपुर्ण तपशील

कार्यक्रमांसाठी आवश्यक दिनांकासह

सांकेताकाचे कलम २५(२)(एच) अंतर्गत

स्वारस्याची अभिव्यक्ती स्विकती अंतिम तारीख

भावी ठराव अर्जदाराच्या तात्पुरते यादीचे वितरण दिनां

१२ तात्पुरत्या यादीचे उद्दिष्ट सादर करण्याची अंतिम तारीख

ठराव अर्जदाराकरिता पात्रता उपलब्ध

भावी ठराव अर्जदारांच्या अंतिम यादी

विनंती वितरणाची तारीख

६ ईओआय सादर करण्याचे ई-मेल

. संचित करण्यात येत आहे

दिनांक: २३.०३.२०२४

Share Certificate.

Date: 27/03/24

Place: Mumba

ठिकाण: आरएसीपीसी, बेलापर

समाप्तीनंतर योग्य कारवाई केली जाईल.

पालमत्ता सोडविण्यासाठी वेळ उपलब्ध आहे.

**देनांक:** २७.०३.२०२४

माहिती अहवाल, मुल्यांकन अहवाल आणि भावी ठराव अर्जदारास ठराव योजनेकरिता

ठराव योजना सादर करण्याची अंतिम तारीख

दोन वर्षांचे वित्तीय अहवाल (अनुसुचीसह)

कर्मचारी/कामगारांची संख्या

वेबसाईटचे युआरएर

9833266055

वनरक्षक जितेन्द्र सपकाळे व

वनरक्षक

वनरक्षक

वनरक्षक

मार्गदर्शनाखाली

बारेला.

शेळके,

डोंगरे,

यांच्या सहभागाने ही कारवाई

केली. संशयीत आरोपी हा

त्याच्या ताब्यातील लाल रंगाच्या

सुपर सप्लेंडर या दुचाकीने

काढलेले सलई जातीचे डिंक

छुप्या पध्दतीने वाहतूक करीत

असतांना आढळून आला.

रात्रीच्या गस्ती असलेले वन

विभाग पथकाच्या कर्मचाऱ्यांनी

त्याचा पाठलाग केला असता

संशयीत आरोपी हा अंधाराचा

फायदा घेत १४ हजार रूपये

MSETCL invites online bids (E-Tender) from reputed & registered contractors on Mahatransco Website

http://srmetender.mahatransco.in for the following Tender

Tender No. EE/EHV(O&M)/DN/ Tender No. EE/EHV(O&M)/

Name of Tender: Notice for 3rd Name of Tender: Notice for 3rd

Call for SRM Tender for hiring of Call for SRM Tender for hiring of

Vehicle (Goods carrier) for Line Vehicle (Goods carrier) for Line

patrolling at EHV Lines s/dn patrolling at EHV Lines s/dn

Ambernath under EHV O&M Padgha under EHV O&M

Division Dombivali for the period Division Dombivali for the

from 01.04.2024 to 31.03.2025. period from 01.04.2024 to

Online Downloading the RFx: 23.03.2024, 10:00 Hrs to

Online Submission of the RFx: On or Before 31.03.2024

Online Opening of the Techno Commercial response opening

Tender Fee: - Rs. 500/- + 5% Applicable Taxes (For all above tender)

For further details visit our website :- http://srmetender

Contact Person :- Division office officers Mob No. :- 9820255082

Note: All eligible Supplier / Contractors are mandated to get enrolled

नमुना जी (वेळेचा विस्तार)

स्वारस्याची अभिव्यक्तीकरिता निमंत्रण

सवेरा डिजिटल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

संगणक, मोबाईल व अन्य उपकरणांचे कार्यचलीत व्यापार, शोरूम रिटेलर

(इनसॉल्व्हन्सी ॲण्ड बॅंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया (इनसॉल्व्हेन्सी रिझोल्युशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स)

रेग्युलेशन्स, २०१६ चे नियम ३६ए चे उपनियम (१) अन्वये)

Executive Engineer, EHV O&M Dn Dombivali

सवेरा डिजिटल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

**सीआयएन:** यु५१९००डब्ल्युबी१९९५पीटीसी०७४०४०

. गणक व इतर संबंधित वस्तूंचे शोरूम व व्यवहारात वापर

https://www.savera.co.in/news-media/

https://www.savera.co.in/news-media/

U51900WB1995PTC074040

२५.०३.२०२४ विस्तारीत ०४.०४.२०२४

०४.०४.२०२४ विस्तारीत १४.०४.२०२४

०९.०४.२०२४ विस्तारीत १९.०४.२०२४

१९.०४.२०२४ विस्तारीत २९.०४.२०२४

२४.०५.२०२४ विस्तारीत ०३.०६.२०२४

आयबीबीआय/आयपीए-००१/आयपी-पी००३८९/२०१७-१८/१०७०

सिद्धा वेस्टन, ९ वेस्टन स्ट्रीट, स्युट क्र.१३४, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-७०००१३

सही/

रचना झुनझुनवाल ठराव प्राधिका

प्राधिकत अधिकार्र

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

Secretary

For Mithanagar Archana

Co-op Housing Society Ltd.

सवेरा डिजिटल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

नोंद ई-मेल: egress.rac@gmail.com

प्रक्रिया ई-मेलः <u>cirp.saveradigital@gmail.com</u>

cirp.saveradigital@gmail.com

**१९६६ मारतीय स्टेट बेंक** किस्कोळ मालमत्ता मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र, बेलापूर, सीबीडी बेलापूर रेल्व स्टेशन कॉम्प्लेक्स, टॉबर क्र.४, ५वा मजला, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई-४०००६१४.

मागणी सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, खालील कर्जदार श्री. रमेश कालुसिंग सोनार, पत्ता: फ्लॅट क्र.३०३, ए विंग

साई बी, ए साई पॅराडाईज कोहौसोलि., कात्रप, कळगाव, बदलापूर, ठाणे, महाराष्ट्र-४२१५०३ मालमत्ता (१):

फ्लॅट क्र.३०५, ३रा मजला, इमारत क्र.०२, ओमकार प्राईड, गाव भानवाज, खालापूर, ठाणे, महाराष्ट्र-४१०२०३

मालमत्ता (२): फ्लॅट क्र.५०२. ५वा मजला. इमारत क्र.०२. ओमकार प्राईड. गाव भानवाज. खालापर. ठाणे

महाराष्ट्र-४१०२०३ (गृहकर्ज खाते क्र.: ४२३३३१७५८१-२, ४२३८३६३६८८-७, ४२२७०७०८९४-२

, ४२२५६६४४४१–८) यांनी बेंकेकडून त्यांनी घेतलेत्या कर्ज स्कमेची मुद्दल व त्यावरील व्याज जमा करण्यात कसूर केलेली आहे आणि यामुळे त्यांचे खाते ०६.०३.२०२४ रोजी नॉन–परफॉर्मिंग ॲसेट (एनपीए) मध्ये वर्गीकृत

करण्यात आले. सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑप

सिक्यरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट. २००२ च्या कलम १३(२) अन्वये त्यांच्या अंतिम ज्ञात पत्त्यावर ११.०३.२०२३ रोजी सूचना पाठविण्यात आली होती, ती ना-पोहोच होता पुन्हा प्राप्त झाली आणि म्हणून त्यांना सदर जाहीर सूचनेद्वां

विकासिक रक्तमः दिनांक ११.०३.२०२४ रोजी देव रक्तम रू.५७,७०,१३८/ – (रुपये सत्तावन्न लाख सत्तर हजा एकशे अडतीस फक्त) तसेच उपरोक्त रकमेवर करारदराने व्याजासह प्रासंगीक खर्च व शुल्क इत्यादी.

सदर पर्यायी सेवेकरिता सुरवात करण्यात आली आहे. वर नमुद कर्जदार आणि त्यांचे जामिनदार (लागू असल्यास)

यांना येथे कळविण्यात येत आहे की, सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून ६० दिवसात थकबाकी रक्कम जमा करावी

अन्यथा सिक्युरीटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिर्ट

कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे की, कायद्याच्या कलम १३ चे उपकलम (८) च्या तरतूदीनुसार प्रतिभूत

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

(१) फ्लॅट क्र.३०५, ३रा मजला, इमारत क्र.०२, ओमकार प्राईड, गाव भानवाज, खालापूर, ठाणे, महाराष्ट्र-४१०२०३. (२) फ्लॅट क्र.५०२, ५वा मजला, इमारत क्र.०२, ओमकार प्राईड, गाव भानवाज, खालापूर, ठाणे.

PUBLIC NOTICE

Mr. Hasmukh Gulabbhai Patel a member of The Mithanagar Archana Co-

operative Housing Society Ltd. having address at B 602, The Mithanagar

Archana Co-operative Housing Society Ltd, M. G. Road, Goregaon West, Mumbai 400 104 and was holding Room No 298 (Old) before redevelopment

Mr. Hasmukh Gulabbhai Patel has reported to the Society that the Original Share Certificate bearing No. 33 for 5 (Five) Shares bearing Nos. From 161 to

165 has been lost/misplaced and an application has been made for a duplicate

The Society hereby invites claims and objections from claimants/objector or

objectors for issuance of duplicate Share Certificate within the period of 14

(fourteen) days from the publication of this notice, with copies of such

documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for

ssuance of duplicate Share Certificate to the Secretary of The Mithanagar

Archana Co-operative Housing Society Ltd, at M. G. Road, Goregaon West,

Mumbai 400104, if no claims/objections are received within the period

n such manner as is provided under the bye-laws of the Society. The

claims/objections, if any, received by the Society shall be dealt with in the

prescribed above, the Society shall be free to issue duplicate Share Certificate

and now Flat B 602 (New) of the building of the Society,

manner provided under the bye-laws of the Society.

इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ च्या कलम १३ चे उपकलम (४) अन्वये सदर सूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसाँच्य

https://www.savera.co.in/news-media/

१०ए, चित्तरंजन ॲव्हेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत-७०००१

**पॅन क्र.:** एएजीसीएस२२१७एन

ोणतेही स्थायी मालमत्ता नाही

(सध्या कोणतेही कार्यचलन नाही)

वित्तीय अहवाल प्राप्त

Price Bid Opening Date: 02.04.2024 at 10:00 hrs (If possible).

Estimated Cost :Rs. 5,99,904/- 31.03.2025.

date: 01.04.2024 at 10:00 hrs (If possible).

on SRM E-Tenders (New) portal of MSETCL.

वनक्षेत्रातून

अवैद्यरित्या

**E-TENDER NOTICE** 

RFx No.-7000030312

DN/DMB/e-Tender-14/2024-25

Estimated Cost : Rs.

5,99,904/- Including all taxes

### जाहीर नोटीस

याद्वारे कळविणेत येते की, **सुरेश केरबा मोतीराम,** राह्णार - ४९१, सुखशांती सोसायटी, सन्सिटी हॉटेलच्या मागे, रोड नं. १९, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई -४०००९३, हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अनुज्ञापन खाते (जाहीरात) पी - साद्ध्य या विभागामध्ये निरीक्षक म्हणून कार्यरत असताना दिनांक १५.१०.२०२३ रोजी मयत झाले. मृत्यूपश्चात् त्यांना पुढे नमुद केल्याप्रमाणे कायदेशीर

वारस				
अ. क्र.	नाव (विवाहीत महिला असल्यास लग्नापूर्वीचे व लग्नानंतरचे अशी दोन्ही नावे नमूद करावीत.)	वय	मृत व्यक्तीशी नाते	
₹.	श्रीमती देविता सुरेश मोतीरम	५० वर्षे	पत्नी	
₹.	क अंशला सरेश मोतीरम	२२ वर्षे	मलगी	l

उक्त नमुद वारसांना उक्त नमुद मृत व्यक्ति पश्चात त्यांच्या निवृत्त वेतन / बँक ठेवी / प्रॉव्हीडंट फंड अनुकंपा तत्वासाठी (शासकीय / निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वारस या नात्याने), म्हाडामार्फत देणेत येणाऱ्या निवासी गाळयाचा लाभ मिळणेकरिता (मृत गिरणीकामगाराचे वारस या नात्याने) वारस दार हवा असल्याने तसा अर्ज तहसीलदार अंधेरी यांचेक डे केला आहे

त्या अनुषंगाने कुणा व्यक्तीचा आक्षेप असल्यास त्यांनी तहसीलदार अंधेरी यांचे कार्यालय, दादाभाई नौरोजी रोड, अंधेरी (प), मुंबई - ४०००५८ यांचेकडे लेखी पुराव्यासह नोटीस प्राप्त झालेपासून ७ दिवसांत संपर्क साधावा. अन्यथा प्रकरणी आक्षेप नाही असे समजून निर्णय घेणेत येईल दिनांक: २७/०३/२०२४

अर्जदार नाव : श्रीमती देविता सुरेश मोतीराम

पत्ता : ४११, सुखशांती सोसायटी, सनसिटी हॉटेलच्या मागे. रोड नं. १९, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००९३.

#### जाहीर सूचना श्री. निळकंठ विश्वनाथ सर्यवंशी हे लार्सन ॲण्ड ट्यूड

ग्रुप ऑफ कंपनीज एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह हौसिं **सोसायटी लि.,** विजय नगर, मरोळ मरोशी रोड, मरोळ. अंधेरी पुर्व, मुंबई-४०००५९ येथील जागेचे संयुक्त सदस्य आहेत आणि सोसायटीची इमारती क्र.एलटी/१८ च्या २ऱ्या मजल्यावरील **फ्लॅट क्र.२४** चे धारक आहेत. **श्री** निळकंठ विश्वनाथ सर्यवंशी यांचे २५.१०.२०२२ रोज कोणतेही वारसदार न नेमता निधन झाले. त्यांचा मुलगा श्री. राजेश निळकंठ सूर्यवंशी यांनी सदर फ्लॅटमधील त्यांचे ५०% शेअर्स हस्तांतरणासाठी दावा व अर्ज केल आहे आणि त्यांच्या नावे सोसायटीचे सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे. सोसायटी याव्दारे, सोसायटीच्या भांडवल

मिळकतीमधील. मयत सभासदाच्या सदर शेअर्स व हितसंबंधाचे हस्तांतरण होण्यास वारस किंवा अन्य दावेदारी/आक्षेप घेणारे यांच्याकडून काही दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते ह्या सचनेच्या प्रसिध्दीपासन १५ (पंधरा) दिवसांत सोसायटीच्या भांडवल . मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तांतरणासाठी त्याच्या/तिच्या/त्यांच्य दावा / आक्षेपांच्या पष्ठ्यर्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पुरावाच्या प्रतींसह मागविण्यात येत आहेत. वर दिलेल्या मुदतीत जर काही दावे/आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत. तर मयत सभासदाच्या सोसायटीच्या भांडवल मिळकतीमधील शेअर्स व हितसंबंधाशी सोसायटी उपविधीतील तरतुर्दीमधील दिलेल्या मार्गाने व्यवहार करण्यास सोसायटी मोकळी असेल. जर सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तातरणास काही दावे/आक्षेप सोसायटी प्राप्त केले तर. सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदींनुसा त्यावर सोसायटी कार्यवाही करेल. सोसायटींच्या

दिवशी उपलब्ध आहेत ठिकाण: मुंबई दिनांक: २७.०३.२०२४ मा. सचिव नोंद.क्र.बीओएम/एचएसजी/४९०१/१९७६ लार्सन ॲण्ड ट्युब्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि.. विजय नगर, मरोळ मरोशी रोड, मरोळ, अंधेरी पुर्व, मुंबई-४०००५९.

नोंदणीकृत उपविधींची प्रत दावेदार/आक्षेपकाव्दां

निरीक्षणाकरिता सोसायटीचे कार्यालय/सोसायटीचे सचिव

यांच्याकडे सदर सचना प्रसिध्दीच्या तारखेपासन

कालावधी समाप्तीच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्य

## जाहीर सुचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सुचित करण्यात येत आहे विजय सोलंकी, हरेश सोलंकी व तुलसी सोलंकी यांच्या वतीने फ्लॅट क्र.४०६ए, क्षेत्रफळ ५१५ चौ.फु. बिल्टअप क्षेत्र अर्थात ४७.८६ चौ.मी.. ४था मजला. ए विंग, पांडरंग वन म्हणन ज्ञात इमारत क्र.डीआर- पांडरंग वन को-ऑप.हौ.सो.लि. म्हणन जात मोमायरीमधील वेस्ट एन्ड म्हणन जात मंकल बिगरशेत जमीन सर्व्हे क्र.३१६/बी. गाव बोळींज. तालुका वसई, जिल्हा पालघर या जागेबाबत त्यांनी नमुद केले आहे की, दिनांक २८.०४.२००६ रोजीचे (नोंद क्र.व्हीएसआय-२/३६९४/२००६) नोंद करारनामानुसार श्री. छोटु कालिदास सोलंकी व श्रीमती कलावती सी. सोलंकी यांनी सदर फ्लॅट खरेदी केले होते. माझे अशिलांनी नमुद केले आहे की, सदर श्री. छोटु कालिदास सोलंकी यांचे १५.०३.२०१९ रोजी निधन झाले आणि त्यांच्या पश्चात श्रीमती कलावती सी. सोलंकी (पत्नी), विजय सोलंकी (मुलगा), हरेश सोलंकी (मुलगा) व तलसी सोलंकी (मलगा) हे त्यांच्या मत्यच्या वेळी शासित कायद्यानुसार वारसदार व प्रतिनिधी आहेत यामले ते मटा फ्लॅटचे मालक अमल्याने त्यांना मटा फ्लॅट विनीय मंम्थेकडे तारण ठेवण्याची इच्छा आहे.

जर कोणा व्यक्तीस, सदर दुकान किंवा भागावर विक्री, अदलाबदल, हस्तांतर, भाडेपट्टा, उपभाडेपट्टा, तारण, बक्षीस, वहिवाट, लिव्ह ॲण्ड लायसन्स परवाना, न्यास, वारसाहक्क, मालकी हक्क, ताबा, कायतेशीर हक जमी किंवा अन्य दतर एकारे कोणताही टावा अधिकार हक किंवा हित असल्यास त्यांनी त्यांचे आक्षेप लेखी स्वरुपात सदर सचना प्रकाशनापासन ७ (सात) दिवसांच्या आत अंड. अनुष्का ओर. वनमाळी यांच्याकडे कागदोपत्री पुरावे/आक्षेप, हित किंवा मागणीसह कळवावेत. अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा त्याग आणि/किंवा स्थिगत केले आहेत असे समजले

ॲड.अनष्का आर. वनमाळी वकील उच्च न्यायालय

ए/०७, २रा मजला, ज्वेन क्विन अपार्टमेंट, हॉटेल रसोईच्या वर, वसई रोड (प.)-४०१२०२.

ठिकाण: वसई

दिनांक: २७.०३.२०२४

## PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given that the Share Certificate No.13 for 5 (five) ordinary shares

bearing Distinctive Nos.61 to 65 of Flat No.41/A Purshottam Tower, Off. Gokhale Road South Near Datta Raul Maidan, Dadar (West) - 400028 standing in the name of MRS. SHEELA VIJAY TAMHANE has bee reported lost/stolen and that an application for issue of Duplicate Certificate in respect thereo has been made to the society at Purshottam Tower, Off, Gokhale Road South, Near Datta Raul Maidan, Dadar (West), Mumbai – 400028 to whom objection if any, against issuance of within 15 days from the date of Publication of this Notice to the concerned society or undersigned having office Shop No.14, Kondaji Chawl No.4 Ground Floor, V. L. Pendnekar Marg, Behind Tata Hospital, Parel, Mumbai-400 012, failing which the claim of such person/s will be deeme to have been waived and/or abandoned and society will issue Duplicate Share Certificte of the said Flat to my client MRS. SHEELA VIJAN SD/

A. H. PAVASKAR Advocate High Court

जळगाव - डिंकाची अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्यांवर वनविभागाची कारवाई कर्तव्यावर असलेले वनमजुर किमतीची दुचाकी व ७ हजार रूपये किमतीचे

नमाम लोकांस याद्यारे कलविण्यात येत आहे की माझे अशिल श्रीमती लथा चंदशेखर कोटीयन हयांची सदनिका कं.वी २०२, तनुश्री पॅलेस को.ही.सो.लि.साग कॉम्प्लेक्स, होली क्रॉस कॉनवेंट स्कल व सेंट जोसेफ चर्च च्या मागे, नुपुर नगर च्या वाजुला, मिरारोड (पु) ठाणे असुन सदर सदनिकेचा दिनांक ११ एप्रिल १९९२ रोजी झालेल oरारनामा जो मे∙सागर विल्डर ऍन्ड डेव्हलपर्स व श्री बंद्रशेखर डी कोटीयन हयांच्यात झालेला होता तो साग कॉम्प्लेक्स ते मिरारोड स्टेशन येथे दिनांव २३.०३.२०२४ रोजी दुपारी ४ ते ४ঃ३० च्या दरम्यान रेक्षाने प्रवास करतांना रिक्षेत हरवले आहे, जर कोणाल सदर फ्लॅटचे गहाळ झालेले दस्ताऐवज सापडले तर त्यांनी त्वरीत खाली दिलेल्या पत्त्यावर आणून दयावे .

हरीश प भंडारी (वकील शॉप नं १२१ सोनम शॉपिंग सेंन्टर गोल्डन नेस्ट फेस ६ मिरा भाईदर रोड

३६ किलो सलई जातीचे डिंक असे १९ हजार रूपये किमतीचा मुद्देमाल सोडून पसार झाला.

#### जाहीर नोटीस तमाम लोकांस याद्दारे कळविण्यात येत आहे की, माझे

अशिल श्रीमती लथा चंद्रशेखर कोटीयन रा •६०२, वी विंग नव गुरूकृपा, केसर वाग मुलुंड (पु) मुंबई हे सदनिका २०२. तनश्री पॅलेस को .ही .सो .लि . सागर कॉम्प्लेक्स होली क्रॉस कॉनवेंट स्कुल व सेंट जोसेफ चर्च च्या मागे, नुपूर नगर च्या वाजुला, मिरारोड (पु) ठाणे हयांचे वाक सभासदत्व व भाग दाखला त्यांच्या नावे हस्तांतरीत करण्याकरीता तनुश्री पॅलेस को .ही .सो .लि .या संस्थेला अर्ज करणार आहे . सदरचा फ्लॅट माझे अशिल हयांचे पर्त श्री चंद्रशेखर डी कोटीयन हयांच्या नावे असुन श्री चंद्रशेखर डी कोटीयन हे दिनांक २२ /०८ /२०२१ रोजी मयत झाले असुन त्यांचे इतर कायदेशीर वारस हयांनी सदर फ्लॅटचे तभासदत्व व भाग दाखला माझ्या अशिलाच्या नावे हस्तांतरण करण्याम सहरकतपुत्र दिलेले आहे. तरी मदर फ्लॅट वर कोणत्याही व्यकतीचा /इसमाचा वारस हक्क गहाणखत, तावा, विक्री, वक्षिसं, भाडे, परवाना, शुल्क वहीवाट, हस्तांतरण, तसेच हक्क, अधिकार किंवा हितसंबंध असेल तर त्यांनी ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासुन १४ दिवसांच्या आत सर्व पुराव्यानिशी खालील पत्यावर कळवावे, सदर नमुद दिवसात हरकत न आल्यास संस्था सदर फ्लंट वाबतीतील सभासदत्व व भाग दाखला माझ्य अशिलाच्या नावे हस्तांतरीत करतील .

हरीश प भंडारी (वकील शॉप नं १२१ सोनम शॉपिंग सेंन्टर गोल्डन नेस्ट फेस ६ मिरा भाईदर रोड मिरा रोड, ठाणे

### जाहीर सूचना

थे सूचना देण्यात येत आहे की, श्री. कांतिला अमृतलाल मेहता हे फ्लॅट क्र.सी१/ए, श्री सदानंद को-ऑप.हौ.सो.लि., उमेश किरण, १०१, भगतसिंग रोड विलेपार्ले (प.), मुंबई-४०००५६ या जागेचे मालक आहेत, यांचे **०५.०७.२०२३** रोजी निधन झाले आणि न्यांचा मुलगा **श्री. समीर कांतिलाल जोखला** यांनी प्रोसायटीच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे.

आम्ही याव्दारे, सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या सदर शेअर्स व हितसंबंधाचे हस्तांतरण होण्यास वारस किंवा अन्य दावेदारी/आक्षेप घेणा ांच्याकडून काही दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते सूचनेच्या प्रसिध्दीपासून **१५ (पंधरा) दिवसां**त सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या गेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तांतरणासाठी त्याच्या/तिच्या यांच्या दावा/आक्षेपांच्या पष्ठचर्थ अशी कागदप आणि अन्य पुरावाच्या प्रतींसह मागविण्यात येत आहेत वर दिलेल्या मुदतीत जर काही दावे/आक्षेप प्राप्त झाल गहीत तर प्रयत मधामटाच्या मोमायटीच्या भांडवल उपविधीतील तरतुदींमधील दिलेल्या मार्गाने व्यवहा करण्यास सोसायटी मोकळी असेल.

आज दिनांकीत २७ मार्च, २०२४, मुंबई

वकील उच्च न्यायाल कार्यालय क्र.२, तळमजला, शांती निवास कोहौसोलि., इमारत क्र.१, पटेल इस्टेट सी.पी. रोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई-४००१०१

### PUBLIC NOTICE

This is to inform the public at large that MR. KAMAL RATHI, Karta of H.U.F. was the lawful owner of Flat No. 15, on 1st Floor, admeasuring about 125 Sq. Fts. Carpet area, in the society known as "Hirnen Shopping Centre Co-op Hsg. Soc. Ltd.", (Formerly known as Hiren Shopping Centre Co-op. Hsg Soc. Ltd., Stuated S.V. Road, Goregaon (West), Mumbai – 400 104., "the said Flat") and the said MR. KAMAL RATHI, Karta of H.U.F. was also holding in his name Share Certificate No. 15 bearing distinctive No.'s from 71 to 75 (both inclusive) ("the said Shares").

It is to inform by MR. KAMAL RATHI, Karta of H.U.F. that original Agreemer dated 7th December, 1985 made and entered into between M/s. P.H. Nensey Land Development Corporation (The Builders) and M/s. Altraclean Operations (The Purchasers) and Share Certificate No. 15 bearing distinctive No.'s from 71 to 75 (both inclusive) issued by the society in the name of MR. KAMA RATHI, Karta of H.U.F. has been lost/misplaced and not traceable after due and diligent search

Any person(s) rightfully claiming to be in possession of or having charge or any beneficial right, title or interest in respect of the said Original Agreement date 7th December, 1985 and Share Certificate No. 15, is requested to return the Original Agreement dated 7th December, 1985 and Share Certificate No. 15 to the undersigned on the address given hereinbelow within 7 days from the date of publication hereof and inform any beneficial right, title or interest in respect thereof alongwith supporting documents, failing which such claim/objection, any, shall be deemed waived/abandoned and not exist.

Place: Mumbai Date: 27 March, 2024 Shop No. 10, Suraj Bali Niwas Station Road, Opp. Registration Office Goregaon (West), Mumbai - 400 104

Vitesh R. Bhoir (Advocate)

## जाहीर सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **श्री. गंगाधर शारदा**प्र शुक्ला हे दुकान क्र.१, क्षेत्रफळ २१० चौ.फु. (बिल्टअप) क्षेत्र, तळमजला, स्वाती को-ऑपरेटिव्ह होसिंग सोसावटी लि., नोंद क्र.टीएनए/(टीएनए)/एचएसजी/(टीसी)/ ४५१५/१९९१-१९९२, दिनांक २८.११.१९९१, तसेच भागप्रमाणपत्र क्र.१, अनुक्रमांक ०१ ते ०५, कॅबिन क्रॉस रोड, भाईंदर (पुर्व), तालुका व जिल्हा ठाणे-४०११०५ या जागेचे कावदेशीर वास्सदार आहेत. मे. रिंका बिल्डर्स आणि श्री. शारदाप्रसाद देविधर शुक्ला यांच्या दरम्यान दिनांक ०४.०२.१९९० रोजीचा करारनामा (बिल्डर करारनामा) झाला होता आणि स्वर्गीय श्री. शारदाप्रसा देविधर शुक्ता (वडील) यांचे ०२.०५.२०११ रोजी निधन झाले होते आणि स्वर्गीय राजपतीदेवी शारदाप्रसाद शुक्ला (आई) यांचेही डिसेंबर, १९९८ मध्ये निधन झाले होते . आणि त्यांच्या पश्चात त्यांचे कायदेशीर वारसदार **१) श्री** जान (बाज्या नस्यात (बाव कावपुरात वारावार १) श्रा गंगाधर शारदाप्रसाद शुक्ला (मुलगा), २) श्रीमर्त सितादेवी मुरलीधर मिश्रा (विवाहापुर्वीचे नाव सितादेवी **शारदाप्रसाद शुक्ला) (मुलगी)** हे आहेत. कायदेशीर वारसदार बहिण यांनी त्यांचा भाऊ अर्जदार यांच्याकडे

पासिदार पारण भागा जाया नाज जजदार पाय्याकड त्यांचे श्रेअर्स हस्तांतर केले. अर्जदार हे आता सदर दुकानाचे १००% मालक आहेत. जर कोणा व्यक्तीस, बैंकेस, वित्तीय संस्थेस, वैयक्तिक, कंपनी, संस्था इत्यादींना काही दावा असल्यास त्यांनी लेखी स्वरुपात दस्तावेजी पुराव्यांसह त्यांचे आक्षेप सदर सूचनेच्या तारखेपासून ७ दिवसांत कळवावेत, अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा सदर दुकानावरील त्याग केले आहेत असे समजले जाईल याची नोंद घ्यावी. दिनांक: २७.०३.२०२४ **दिलीप के. पांड्ये** 

वकील उच्च न्यायालय बी/१०९, भाईदया नगर 'बी' इमारत, नवघर रोड, भाईंदर (पुर्व), जिल्हा ठाणे-४०११०५.

### जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की गाझे अशील **श्रीमती प्रमिला चेतन कोटियन** य सदर फ्लॅट क्र.१०१, १ला मजला, इमारत क्र.बी/२ नवनी भारत को-ऑप. हौसिंग सोसायटी, आझाद नग नवना भारत का-आप. हासिंग साक्षायदा, आझाद नगर क्र.२, कोसल मिलजवळ, ठाणे (ч.), ठाणे-....., क्षेत्रफळ २२५ चौ.फु., ब्लॉक क्र.१२३, गाव पांचपाखाडी, तालुका व जिल्हा ठाणे ही जागा खरेते करण्याची इक्का आहे. सदर फ्लॅटबे मुळ मालक १) स्वर्गीय श्री. राजु लोके पुजारी व (२) स्वर्गीय श्रीमती स्वनाय श्रा. राजु लांक धुजारा व (२) स्वनाय श्रामता कमलाक्षी राजु पुजारी हे आहेत आणि १) स्वर्गीय श्री. राजु लांक पुजारी यांचे १२.१२.२००६ रोजी निधन झाले आणि २) स्वर्गीय श्री. कमलाक्षी राजु पुजारी यांचे ०१.०४.२०१४ रोजी निधन झाले आणि . यांचे कायदेशीर वारसदार नामे **१) श्री. नविन रा**ज पुजारी व २) श्री. दिनेश राजु पुजारी यांच्याकडे सद फ्लॅट जागेचे कायदेशीर वारसदार म्हणून मालक आहे आणि वहिवाट व ताबा आहे.

जर कोणा व्यक्तीस याबाबत विक्री, अदलाबदल, बक्षीस गरण, अधिभार, न्यास, वारसाहक, ताबा, भाडेपट्टा गाल, जावनार, न्यास, पारसाहक, ताबा, नाडग्रह. गालकी हक किंवा अन्य इतर प्रकारे काही दाव असल्यास त्यांनी खालील स्वाक्षरीकर्त्याकडे आजच्य तारखेपासून **१४ दिवसात** कळवावे. अन्यथा अश् ज्यक्तींचे दावा त्याग किंवा स्थगित केले आहेत अर समजले जाईल.

देनांक: २७.०३.२०२४ सही/

सुरेंद्र कुमार यादव (चकील उच्च न्यायालय) कार्यालय: ३रा मजूला, विकल कक्ष, एम.एम. कोर्ट, प्रंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००६९.

## PUBLIC NOTICE

Public notice is issued on behalf of my client MR HARKBHADUR DAMAR THAPA and MRS. RADHA HARKBHADUR THAPA who intends to buy the fla premises bearing Flat no.201. Building no.3. B Wing. Aadarsh Park CHSI Khambalnada Dombiyali (Fast Taluka – Kalyan, Thane – 42/1201 (hereinafter referred as "the said property"). The said property was jointly purchased by Late Mr. B.N. Ananthanarayanan and his son purchased by Late Mr. B.N. Ananusa rarger has a comment no. KLN-Mr. B.A. Rajesh via registered document no. KLN-3/414/1999 at the Registrar of Assurances at Kalyan SRO – R Mr B N Ananthanaravanan expired on 17/10/2018 at Mumbai. The owners of the said property are 1) Smt. Radha A.N. (wife of deceased), 2) Mr. B. A. Rajesh (son of deceased) and 3) Mrs. Uma Ganesh (daughter of deceased)

and only legal heirs of the said property. Any person or legal heirs having any claim in respect of the above referred flat or any part thereof by way of sale, exchange, mortgage, charge, gift, maintenance, inheritance, possession, lease, tenancy, lien, license, hypothecation, ansfer of title or beneficial interest under any trust, right o rescription or pre-emption or under any agreement osition or under any decree, order or award of otherwise claiming howsoever are hereby requested to make the same known in writing together with supporting documents to the undersigned at his office within a period of 14 days (both days inclusive) hereof falling which the claims of such persons shall be deemed to have been nived and/or abandoned.

GHANSHYAM YADAV Date: 27/03/2024 ADVOCATE HIGH COURT 3RD FLOOR, ANDHERI COURT BAR ASSOCIATION ANDHERI EAST MUMBAI-69

#### जाहीर सूचना माझे अशील श्रीमती मंगला पुरुषोत्तम लाड या फ्लॅट

क्र.बी६-२०२. २रा मजला. इंद्रप्रस्थ बी५/बी६/सी३ को–ऑप.हौ.सो.लि., गाव नवघर, भाईंदर (पूर्व), ता व जि. ठाणे-४०११०५ या जागेच्या मालक आहेत यांच्या वतीने येथे सूचना देण्यात येत आहे. तथापि माझ्या अशिलांकडून मुळ करारनामा **मे. लोधा ॲण्ड** शाह बिल्डर्स आणि श्री. धनंजय निलये सालियन . च्या ट्राम्यान मटा फ्लॅट जागेबाबत यालेला टिनांव २६.१०.१९९४ रोजीचा मळ करारनामा हरवला आहे जर कोणा व्यक्तीस सदर दिनांक २६.१०.१९९४ रोजीच मुळ करारनामाबाबत विक्री, अदलाबदल, अधिभार -बक्षीस, न्यास, वारसाहक, ताबा, भाडेपट्टा, तारण मालकी हक किंवा अन्य इतर प्रकारे कोणताही दाव असल्यास त्यांनी माझ्याकडे आणि खालील स्वाक्षरीकर्त्याकडे आवश्यक दस्तावेजी पुराव्यांसह सद सूचना प्रकाशनापासून **१४ दिवसात** लेखी स्वरुपा कळवावे. अन्यथा अशा व्यक्तींचे दावा त्याग केत आहेत असे समजले जाईल आणि तद्नंतर कोणताह टाना निचारान घेनला जाणार नाही आणि सटर फलॅर जागेचे अधिकार स्पष्ट व बाजारभाव योग्य असल्यान आणि सदर करारनामाबाबत कोणताही दावा नाही अर समजले जाईल

दिनांक: २७.0३.२0२४ आर.एल. मिश्र वकील उच्च न्यायालय, मंबई कार्यालय क्र.२३, १ला मजला, सनशाईन हाईटस्, रेल थानकासमोर, नालासोपारा पूर्व, जिल्हा पालघर-४०१२०९

फ्लॅट क्र.ए/जी-०३, देव आशिष को-

## जाहीर सूचना

#### येथे सूचना देण्यात येत आहे की, माझे अशील श्री. साहब काजी. जे सदर फ्लॅटचे मालक आहेत आलम कीजा, ज सदर फ्लटच मालक आहत यान खालील अनुसुचीत नमुद केलेले फ्लॅट व शेअर्स विक्री करण्याची इच्छा आहे. म्हणून मी सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देत आहे.

श्री. साहब आलम काजी यांनी सदर फ्लॅट श्रीमती आसरी गु.तराज लिससे यांच्याकडून सन २००२ मध्ये खरीदी केले होते आणि श्रीमती आसरीन गुलराज लिमहे यांनी सदर फ्लॅट मे. कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स यांच्याकडून १८.१२.१९९७ रोजी खरेदी केले होते. सदर बाच्याकहून ८८.१२.१५ तथा ब्यत्य करा हात. स्टर बिल्डर ऑणि श्रीमती आसरीन गुलराज लिसहे बांच्या दरम्यान झालेला प्रथम मुळ श्रेणी कारातामा हरवला आहे आणि सापडलेले नाही म्हणून याबाबत लापता तक्रार क.९११५/२०२४ नुसार नया नगर पोलीस ठाणे, मिरा रोड (पुर्व), ठाणे, महाराष्ट्र-४०११०७ येथे तक्रार नॉद करण्यात गरा... जर कोणाही याबाबत आक्षेप किंवा दावा असल्यास त्यांन

अर फाणाहा योबाबरा आक्षेत्र किया दाया असरयास स्वान ॲड. ए.क्यु. उस्मानी, पत्ता: कार्यालय क्र.ए−४६, शांर्त शॉपिंग सेन्टर, मिरा रोड पुर्व, ठाणे, महाराष्ट्र−४०९१०७ वेह वृत्तपत्रात सदर सूचना प्रकाशन तारखेपासून १५ दिवसार कळवावे. अन्यथा सदर मालमत्तेबाबतचे दावा किंवा आक्षेप ऱ्याग केले आहेत असे समजले जाईल.

त्यागं कल आहत अस समजल जाइल. मालमनेची अनुसुची फलॅट क्र.३ अर्थात २०१, ररा मजला, कमर पॅलेस नियोजित कोहीसोलि. म्हणून ज्ञात इमारत, गाव भाईदर, मिरा रोड पुर्व, ठाणे-४०११०७, क्षेत्रफळ ४१.३७ ची.मी., जमीन जुना सलढ़ें क्र.५१३ व नवीन सल्हें क्र.९७, मिरा भाईदर, महानगरपालिकच्या मयदित आणि नोंदणी जिल्हा व उप-जिल्हा ठाणे यांच्या न्यायक्षेत असलेल्या मालमत्तेचे सर्व भागा व खंड भाग व खंड. दिनांक: २७.०३.२०२४ ए.क्यु. उस्मानी

दिनांक: २७.०३.२०२४

(वकील उच्च ु न्यायालय)

#### जाहीर सूचना सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की,

ऑप.हौ.सो.लि., पोलीस ठाणे समोर, उत्तन रोड भाईंदर पश्चिम, ठाणे-४०११०१ या मालमत्तेकरित मे. संजय ॲण्ड कं. आणि श्री. बबन बाळा कदम ंच्या दरम्यान झालेला दिनांक ०८.१२.१९८५ रोजीच विक्री करारनामा **(दस्तावेज क्र.१३७५/१९८६)** हरवले आहे. मर्व व्यक्तींना मचित क्राग्यात येत आहे की. मटा हरवलेल्या दस्तावेजाच्या आधारावर कोणताही व्यवहा करु नये. पढे श्रीमती अनिता आर. जैस्वाल या विद्यमान ालक आहेत आणि श्री. शारुख असरार खान, श्रीमर्त झिहदा एम. खान. श्रीमती अनिका असरार खान व श्रीमती अनिता आर. जैस्वाल यांच्या दरम्यान दस्तावेज क्र.७८७/२०१२/ठाणे-०४ नुसार दिनांक ०२.०२.२०१२ रोजीचा विद्यमान विक्री करारनामा झाला आहे. जर कोणा व्यक्तीस याबाबत काही आक्षेप असल्यार

त्यांनी आवश्यक दस्तावेजी पुराव्यांसह लेखी स्वरुपा खाली नमुद केलेल्या पत्त्यावर आजच्या तारखेपासू पंधरा दिवसात कळवावे. अन्यथा असे समजले जाईल की, कोणताही दावा अस्तित्वात नाही असल्यास त्या

श्री. निलेश ए. दबे दिनांक: २७.०३.२०२४ (वकील, उच्च न्यायालय) कार्यालय क्र.२०४, बी-इमारत, रजनी पार्क, एस.व्ही रोड, भाईंदर पूर्व-४०११०५

## जाहीर सूचना

श्री. ऑगस्तीन सालिस हे सोसायटी अर्थात रामायण कोहौसोलि.. कांदरपाडा. दहिसर (प.) मंबई-४०००६८ या सोसायटीचे नोंद्र सदस्य आहेत आणि त्यांच्या नावे सदर सोसायटीमधील ए ् विंगमधील १ल्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र.१०३ आणि भागप्रमाणपत्र क्र.४१ नुसार ५/१० पूर्णपणे भरणा केलेले शेअर्स आहेत आणि सदर श्री. ऑगस्तीन सालिस यांचे ११.१०.२०२० रोजी निधन झाले.

सोसायटीद्वारे सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील सदर फ्लॅटमधील मयत सभासदाचे शेअर्स/हित हस्तांतरण होण्यास वारस किंवा अन्य दावेदारी/आक्षेप घेणारे यांच्याकडून काही दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते ह्या सूचनेच्या प्रसिध्दीपासून **७ दिवसांत** सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या दृय्यम भागप्रमाणपत्र वितरणासाठी त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या दावा/आक्षेपांच्या पृष्ठ्यर्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पुरावाच्या प्रतींसह सोसायटीच्या उप-विधी अंतर्गत मार्गावण्यात येत आहेत. वर दिलेल्या मुदतीत जर काही दावे/आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत, तर मयत सभासदाच्या सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील शेअर्स व हितसंबंधाशी सोसायटी उपविधीतील तरतुदींमधील दिलेल्या मार्गाने व्यवहार करण्यास सोसायटी मोकळी असेल.

रामायण को-ऑप.हौ.सो.लि.करिता

मा. सचिव/अध्यक्ष

## रोज वाचा 'दै. मुंबई लक्षदीप'

जावक क्र. १६२१/२०२४ धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, २ रा मजला, सास्मिरा इमारत, सास्मिरा मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०३०. दिनांक - २२/०३/२०२४

#### जाहिर नोटिस

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० चे कलम ३६ (१) (ए) अन्वये,

अर्ज क्रमांक १६/ २०२४

न्यासाचे नाव : बॉम्बे गोग्रास भिक्षा संस्था न्यास नोंदणी क्रमांक :- F-३८० (मुंबई),

या नोटीसद्वारे जाहीर करण्यात येते की, धर्मादाय सह आयुक्त-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे कडे महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास नोंदणी अधिनियम १९५० चे कलम ३६ (१) (ए) नुसार दाखल झालेल्या अर्ज क्रमांक १६/२०२४ मध्ये पारीत करण्यात आलेल्या दिनांक २०/०३/२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार **बॉम्बे गोग्रास भिक्षा संस्था** सार्वजनिक न्यास नोंदणी क्रमांक :- F-३८० (मुंबई) यांच्या मालकीच्या मिळकतीच्या विक्री संदर्भात अटी व शर्तीनुसार निविदा मागविण्यात येत आहेत. तरी विक्री संदर्भात अटी व शर्तीची प्रत ट्रस्टच्या कार्यालयातून **बॉम्बे गोग्रास भिक्षा संस्था** पत्ता आइ.एम.पी. पॉवर लि. फिल्म सेंटर बिल्डींग, दुसरा मजला, ६८, ताडदेव रोड, मुंबई - ४०००३४ कार्यालयीन वेळ सकाळी ११.00 ते दुपारी ४.00 या दरम्यान प्राप्त करता येतील.

सदर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांत सिलबंद लिफाफ्यामध्ये निविदा पाठविण्यात याव्या. सदर निविदेसोबत निविदा रकमेच्या २०% रकमेची अनामत रक्कम कोणत्याही अटी व शर्तों शिवाय **बॉम्बे गोग्रास भिक्षा संस्था** यांच्या नावे डिमांड ड्राफ्ट किवा पे ऑर्डर चे स्वरुपात पाठविण्यात याव्यात. सिलबंद पाकीटात मा. धर्मादाय सह आयुक्त-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, पत्ता-धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, २ रा मजला, सास्मिरा इमारत, सास्मिरा मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०३० या कार्यालयात सदर नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत पाठविण्यात याव्यात. सदर सिलबंद निविदा दिनांक २६/०४/२०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा. धर्मादाय सह आयुक्त-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे दालनात/न्यायालयात सकाळी ११.00 वाजता उघडण्यात येतील. सर्व निविदा धारकांना सदर कार्यालयात दि. २६/०४/२०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता हजर राहण्याची मुभा आहे. निविदा धारक यांनी काढलेल्या पे ऑर्डर संबधीत बँकेच्या संमती पत्रासह पाठविणे आवश्यक आहे. सदर निवीदा धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयात कोणत्याही कामाचे दिवशी सकाळी १०.०० ते द. ३.०० वाजेपर्यंत दाखल करता येतील. ज्या निविदा धारकाची निविदा स्वीकारण्यात येवूनही उर्वरित रक्कम भरण्यास तो असमर्थ ठरल्यास सदर आदेशातील अटीप्रमाणे त्याने जमा केलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.

#### मिळकतीचे वर्णन

sale of the land Parcels situate at Nasrapur, bearing Survey Nos. 3C/8, 3%/7B, %0/%, %0/C, %%/7/A, %%/7/K, %%/7/B, %%/%, %3/%, %3/%, ४४/३ and ४४/४, admeasuring १९.४५७५ acres on "as is where is" basis सदरची सूचना माझ्या सही व मा. धर्मादाय आय्क्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे शिक्यानिशी आज दि. २१.०३.२०२४ रोजी देण्यात आली आहे.

सही/-(सीमा केणी) अधीक्षक (न्याय), धर्मादाय आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय

#### TO WHOMSOEVER IT IS CONCERN

Notice is hereby given to the public at large that, Sale Agreement dated 21/05/1983 between M/s. Vijay Nagar corporation (a partnership firm) builder & Developer to Mr. Lieut Michael Meenator, & Mrs. Isabella Philomena Michael Meenator for the property bearing Flat No. 401, building No. E-20/A, on 4th floor, situated at Creek View C.H.S Ltd., Yogi Nagar, Eksar Road, Borivali (West), Mumbai 400091 is lost/misplaced and a complaint bearing Lost report No. 34984 dated 18.03.2024 has been lodged before Borivali police station by my client Mr. Naresh Kumar P. Khemka.

If any one finds the original Sale Agreement, kindly drop at the below mentioned address. Any person/s, banks and/or financial institutions have any kind of claim/objection/s of whatsoever nature by way of legal charges, attachment, lien, claim, lispendence, Sale, Mortgage, Lease, demands in respect of the above said flat shall lodge their claims and objections within 15 days from the date of publication hereof, with documentary evidence, at the undersigned address. If no claim/objection is received within the period prescribed above, it will be deemed that the above mentioned flat is free from all encumbrances. Failing which it shall be assumed that there is no claim/s, of any person/s or bank or financial institutions, in respect of said Flat/property and shall be treated as waived and not binding on our client. If any claim is received on the expiry of 15 days period the same will not be entertain. Date: 14.02.2024

MS. NIKITA MEHTA

Advocate High Court Bombay

#### K K FINCORP LIMITED Corporate Identification Number ("CIN"): L65990MH1981PLC023696

Registered Office: Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai – 400 063, Maharashtra; Tel No. +91-22- 4058 9888; Email: kkii\_igrd@remigroup.com; Website: www.remigroup.com

## **PUBLIC NOTICE**

We, the undersigned being key shareholders & promoters (the "Promoter Acquirers" or "Transferees") of K K Fincorp Limited ("the Company"), jointly give notice about the intention to consolidate our ownership / contro over the Company from the public Shareholders in compliance with Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended (the "Delisting Regulations") and also in compliance with the Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Basec Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023, as amended: A. The Company is registered under the Companies Act. 1956 originally incorporated as "Kuber Kamal Industria

Investments Limited" as a Public Limited company under the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated January 13, 1981 and Certificate of Commencement of Business dated March 09, 1981 issued by Registrar of Companies, Bombay, Maharashtra, Subsequently, name of the Company was changed to "K K Fincorp Limited" vide fresh certificate of incorporation pursuant to change of name dated February 20, 2015 issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra; The Registered Office of the Company is situated at Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East).

Mumbai – 400 063, Maharashtra; The Company is registered with the Reserve Bank of India as Non-Banking Financial Company ("NBFC")

The Company is having a Certificate of Registration bearing No. 13.00282 dated March 06, 1998, issued by the Reserve Bank of India under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. The Company is classified as Loan and Investment Company (Non-Accepting Deposits) as NBFC (Non-Deposit) and is duly authorized by Board of Directors of the Company; The following Promoter Acquirers or the Transferees vide Initial Public Announcement dated October 20, 2023

have proposed the Delisting Offer:

i) Bairang Finance Limited ("Promoter Acquirer 1"), Remi Sales and Engineering Limited ("Promotel Acquirer 2") and Remi Securities Limited ("Promoter Acquirer 3") (Promoter Acquirer 1, Promoter Acquirer 2 and Promoter Acquirer 3 are hereinafter collectively referred to as the "Promoter Acquirers" or the "Transferees" for the Delisting Offer).

ii)The registered office of all the Promoter Acquirers are situated at Plot No.11. Cama Industrial Estate Goregaon (East), Mumbai – 400 063, Maharashtra, India. iii)The members of the Promoter Acquirers are duly authorised and hereby give this notice about their intention

to acquire 42,48,800 Equity Shares representing 75.87% of the paid up equity share capital that are held by public shareholders of the Company in accordance with the Delisting Regulations. The reasons for acquisition or consolidation of shares in the Company by the Promoter Acquirers in terms of the

Delisting Offer are hereunder: a) The proposed delisting would enable the Promoter Acquirers of the Company to obtain full ownership of the Company which will in turn provide increased operational flexibility to support the Company's business and

make investments in the Company; b) The Delisting Proposal will provide the Public Shareholders an opportunity to realize immediate and certain

value for their Equity Shares; and The delisting of Equity Shares will result in reduction of the on-going substantial compliance costs which

includes the costs associated with listing of Equity Shares such as annual listing fees and fees payable to share transfer agents or such other expenses required to be incurred as per the applicable securities law. n case any party i.e. shareholder/ creditor or any other entity having any objection in aforementioned acquisitior of shares by the Promoters Acquirers, they may submit their objection in writing to Company at their registered office or to Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, Mumbai at Mumbai Central Building  $3^{\circ}$  floor. Mumbai Central. Mumbai 400008 within 30 days from the date of publication of this notice.

This notice is being given to ensure compliance with the provisions related to requirement of Prior Public Notice about change in control/management in terms of the Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023 and after obtaining prior permission of the Reserve Bank of India vide letter dated March 22, 2024.

For and on behalf of K K Fincorp Limited

Whole Time Director

For and on behalf of Bajrang Finance Limited ("Promoter Acquirer 1")

Mahabir Prasad Sharma

Shiy Kumar Sharma

Director

("Promoter Acquirer 3")

For and on behalf of Remi Sales and Engineering Limited ("Promoter Acquirer 2") **Bhagirath Singh** Director

For and on behalf of Remi Securities Limited

Saniav Maheshwari Whole Time Director

Date: March 26, 2024

**FINANCIAL EXPRESS** 

## EVASION OF INPUT TAX CREDIT UNDER GST

# Fake credit cases worth ₹19,690 cr in FY24 till January

**AANCHAL MAGAZINE** New Delhi. March 26

WRONGFUL AVAILMENT OF input tax credit (ITC) or fake ITC claims has emerged as a major cause of concern for Goods and Services Tax (GST) authorities amid continuing action against frauds, evasion and registration of bogus entities under the indirect tax regime.

A total of 1,999 cases have been booked for fake ITC claims in India in the ongoing financial year 2023-24 (till January), 3% more than 1,940 cases booked in the full financial year 2022-23, with the highest number of cases registered in Gujarat, West Bengal, Haryana, Assam, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka and Delhi, as per data viewed by *The* Indian Express.

Even though the number of fake ITC cases of GST have been the highest in Gujarat and West Bengal among 34 states/ union territories, in terms of value detected, Haryana and Delhi stood at the top with an amount of ₹10,851 crore, the data showed. Haryana and Delhi together account for 55% of the total amount of ₹19,690 crore detected in the fake ITC claims under GST in the current financial year, even though their share in number of cases is much less at 14.5%. Incidentally, the number of fake ITC cases booked have been lower than previous year in 10 states/union territories (UT), including Gujarat and Haryana, while the number of fake ITC cases booked have doubled in 2023-24 from the previous year in seven states/UTs including Delhi (an increase of 150%), West Bengal (134 per cent) and Telan-

gana (228%). The total fake ITC cases of GST this year involved detection of an amount of ₹19,690 crore in 2023-24 (till January), nearly 50% higher than ₹13,175 crore detected in the previous financial year 2022-23. This data pertains to the cases booked by Directorate General of GST Intelligence (DGGI) and does not include

ATA **GLANCE** ■ A total of

1,999 cases have been booked for fake ITC claims in India in the ongoing financial year 2023-24 (till January), **3%** more than 1,940 cases booked in the

full financial year

2022-23

Even though the number of fake ITC cases of GST have been the highest in Gujarat and West Bengal, in terms of value detected, Haryana and Delhi stood at the top

The cycle of fraud

has also reduced

with firms not being

able to continue taking

fake ITC with sequential

filing of returns

2023-24 In the initial phase of the GST rollout, there wasn't much action taken by enforcement agencies

■ Total fake

ITC cases of

GST this year

detection of

an amount of

**₹19,690 cr** in

involved

cases of central GST (CGST) and state GST (SGST) authorities. In 2022-23, about 1,940 cases of fake ITC were booked by DGGI, involving detection of an amount of ₹13,175 crore.

"We are better performing than last year in terms of catching evaders. But whatever we are catching is still miniscule because this problem of fake ITC is quite severe.

In the initial phase of implementathere tion, wasn't much action taken by enforcement agencies and it

was more about facilitation. Many people entered into this fake ITC during that period. On the registration front, many changes such as bank and address validation have been made to ensure that the registration route for bogus entities gets tightened. The cycle of fraud has also

reduced with firms not being able to continue taking fake ITC with sequential filing of returns. But, fake ITC is the main agenda. We are specially targeting masterminds," a senior government official told The Indian Express.

The GST fraud cases involving the use of fake invoices for wrong availment of ITC usually involve fake invoices that are raised by an entity without actual supply of goods or services or payment of GST.

Another modus operandi of GST fraud has been seen through routing of invoices through a series of shell companies/dummy companies and transfer of input tax credit from one company to another in a circular fashion to increase the turnover.

"Most number of cases of the fake ITC availment are

Uttar Pradesh. Several sectors especially construction, metals, tiles, marbles have seen such cases of fake ITC along with cases of services sectors including insurance and pharma sectors, or manpower supply services to many sectors. It is being

being seen in

Delhi, Harvana,

Rajasthan and

and if somebody is gaming the system, then we catch them," the official cited above said. The recovery rate is slow as

detected everywhere including

big businesses involved with

industry chambers. We are

using various analytical tools,

cases take some time to be fully probed and in many cases, the evaders and masterminds of such fake ITC claims are tough to be traced, officials said. In those cases, then, the aim is to curb the cycle of the fraud, they said. In 2023-24 (till January), out of the total ₹19,690 crore

detected in fake ITC cases, 105

persons were arrested.

## CAD narrows to 1.2% despite high trade deficit

compared to 2.6% in the cor-

responding period of the pre-

strong FPI flows, BoP surplus

for the quarter was still quite

small as other parts of the cap-

ital account, including FDI

flows, remained sluggish," said

Abhishek Upadhyay, senior

economist, ICICI Securities

year CAD to come in below 1%

of the GDP due to a surplus in

the current account balance in

Q4. The assumption is mainly

on account of the record ser-

vices trade surplus, which has

shrunk the overall trade deficit

considerably in January-Febru-

ary, and is likely to push the

overall figure into a positive

the country's overall trade

deficit, including merchandise

So far, in January-February,

territory in March.

Economists expect the full-

Primary Dealership.

"Despite modest CAD and

vious fiscal.

**ACCRETION TO RESERVES** 

quarter this year recorded a net accretion of \$6 billion to the country's forex reserves on the balance of payment (BoP) basis, compared with just \$2.5 billion in Q2FY24. In Q3 FY23, there was accretion of \$11.1 billion to the reserves.

The net inflows in capital account in Q3 this fiscal were \$17.3 billion, compared with \$13 billion in the September quarter. The sharp rise in net capital flows in Q3 was caused by \$4 billion as net FDI inflows compared to an outflow of \$628 million in the previous quarter. Net foreign portfolio investments (FPIs) also rose from \$4.9 billion in Q2 to \$12 billion in Q3FY24. The sub-account of "bank-

ing capital" also saw a sharp rise in Q3FY24 compared to the previous quarter. On a net basis, the inflows on this account stood at just \$16.4 billion in the December quarter versus \$4.3 billion in Q2. "Banking capital" in the balance of payment parlance refers to changes attributable to transactions among domestic and foreign banks.

The net outgo on the primary income account, primarily reflecting payments of investment income, rose to \$13.2 billion from \$12.7 billion a year ago, said the RBI. Cumulatively, in April-December of FY24, the CAD moderated to 1.2% of the GDP as

> assist as standard. The company will also offer 12-speed automated manual transmission for the first time in the tractor trailer and mining

models. The Chennai-based company further said that it is evaluating entry into the light commercial vehicle segment. "This segment is not the strength of Bharat-Benz. We will be selective; we will pick and choose the segment and bend the curve in those seg-

ments. We don't want to be

not a mass market player and we will never be," Arya added.

FROM THE FRONT PAGE

(\$/billion)

Q2FY24

and services, stood at \$2.7 bil-

lion, much lower than \$8 bil-

lion in the comparable period

of FY23. India Ratings and

Research (Ind-Ra) expects the

current account deficit to dip

nomic environment remains

uncertain, there are nascent

signs of a pick-up in economic

activity," it said in a note. The

agency expects the goods trade

deficit to moderate to \$64 bil-

lion in Q4, services trade to

come in at a record \$47 billion.

far in the current quarter con-

tinue to remain positive, with

a \$7.1 billion inflows as

against a \$2.1 billion outflow

in the corresponding period of

last year. This shall aid in low-

ering CAD in the March quar-

ter as well. For FY25, econo-

mists expect CAD to be around

1.2% of the GDP.

Further, FPI net inflows so

"Although the global eco-

in Q4FY24.

venturing into the compressed natural gas (CNG) segment, DICV may do a 'tactical play' in the liquefied natural gas (LNG) segment.

"We may work with alliances, partnerships to have a powertrain solution but it purely depends on the LNG infrastructure and the level of penetration (of the technol-

## Kalyani family dispute escalates

**THE LATEST SUIT** filed by the Hiremath siblings noted that everything that Kalyani owns is part of HUF. The businesses of the joint family were either in the form of companies, or proprietorship concern or partnership firms and also like shareholdings in different firms. The suit added that his son Neelkanth Kalyani actively participated in the family business.

"It is evident that ANK and NAK earned a fortune over their lifetime, and further that these monies always formed a part of Kalyani family HUF," the plaint said. The suit has named several listed and private limited companies, firms, proprietorship firms, shares of other companies, immovable assets, bank accounts and properties as part of the assets owned by the undivided family. It includes Bharat Forge, Kalyani Steels and Kalyani Consultants.

After ANK's demise in 1954, his son, Neelkanth Annappa Kalyani (NAK) started managing the joint family, its properties as well as the joint family business. Neelkanth Kalyani contributed significantly to the growth of industry and enterprise in India. After Neelkanth's health deteriorated in 2011, Baba Kalyani became the karta of the HUF.

The relationship between the Hiremaths, who control Hikal, and Baba Kalyani soured after the death of their mother, Sulochana Neelkanth Kalyani in February 2023. The suit stated that after the demise of Sulochana, Baba, being the karta of HUF, instead of giving effect to the various wishes and writings that have been executed from time to time, refused to have any further discussions. Their apprehension was that Baba Kalyani will take over all the assets of the Kalyani family HUF and deprive them of their respective shares.

Asignificant part of the joint family funds have been utilised over the years to invest and form several entities, purchase assets and create further substantial assets and wealth. Baba Kalyani alone does not and cannot have a right to the same, states the suit. The siblings have asserted their right by stating that they are coparceners in the Kalyani family HUF by the 2005 Amendment to Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956. Accordingly, they are within their rights to seek a partition of the Kalyani family HUF in their  $respective \ rights \ as \ coparceners$ of the Kalyani family HUF.

The Hiremath siblings have attached a list of assets that they believe form part of the joint family property and have sought further details about other undisclosed assets from Baba Kalyani. The suit has asked all the

respondents, which include Baba Kalyani, his son Amit, Gaurishankar Kalyani (Baba's younger brother), Viraj (Gaurishankar's son), Sheetal (Gaurishankar's daughter), and Sugandha (their mother) to make full disclosure about properties and assets acquired from the family nucleus and their current position.

## Daimler bets on infra play with 14 product launches

"BUTWE ALSO expect Q3 and O4 to be very strong," Arya added.

Scheduled for market launch in April 2024, the rigid heavy-duty trucks will be powered by an all-new 6.7litre engine and can be used for bitumen, bulker, petrooil and lubricant payload

application.

Its construction and mining heavy-duty range have been re-engineered to suit surface transport construction application and terrains, offering first-in-segment rear shock absorbers and hill-hold present everywhere, we are

While deciding against

ogy)," Arya added.

## Meesho lines up \$300-mn round

THE FUNDING ROUND will largely consist of primary capital but also have a small portion of secondaries which will be used to buy out early investors. Venture Highway, Meta and Y Combinator are a few of its early backers, as per Tracxn data.

Meesho declined to comment on the matter. Meesho's fundraise comes at a time when rival Flipkart has already received \$600 million from par-

\$1 billion round. Even Amazon has infused \$100 million in its India entity last month. Meesho started reporting a monthly profit of ₹4-5 crore since July 2023, and has largely remained profitable since then, according to CFO Dhiresh Bansal. In FY23, it halved its losses to

ent Walmart as part of a larger

₹1.675 crore from ₹3,251 crore in FY22. Revenue grew 77% from ₹3,232 crore in FY22.

## SC: Pre-trial injunction against media may severely impact freedom of speech

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 26

**COURTS SHOULD NOT** grant ex parte injunctions against publication of a news article barring in exceptional cases as it may have severe ramifications for the right to freedom of speech of the author and the public's right to know, the Supreme Court has said.

Setting aside a trial court's order directing international media group Bloomberg to take down an allegedly defamatory news article against Zee Entertainment, the top court said injunctions against the publication of material should be granted only after a full fledged trial.

"The grant of a pre-trial injunction against the publication of an article may have severe ramifications on the right to freedom of speech of the author and the public's right to know," a three-judge bench headed by Chief Justice DY Chandrachud said. The bench, also comprising Justices Justices J B Pardiwala and Manoj Misra, said an injunction, particularly ex-parte, should not be granted without establishing that the content sought to be restricted is "malicious" or "palpably false".

"Granting interim injunctions, before the trial commences, in a cavalier manner results in the stifling of public debate....In other words, courts should not grant ex-parte injunctions except in exceptional cases where the defence advanced by the respondent would undoubtedly fail at trial," the bench said. The SC said grant of an interim injunction, before the trial commences, often acts as a "death sentence" to the material sought to be published well before the allegations have been proven."While granting ad-interim injunctions in defamation suits, the potential of using prolonged litigation to prevent free speech and public participation must also be kept in mind by courts," it said.

The top court was hearing a plea filed by Bloomberg against the March 14 order of the Delhi High Court, which dismissed its appeal against the trail court order.

## K K FINCORP LIMITED Corporate Identification Number ("CIN"): L65990MH1981PLC023696

Registered Office: Plot No. 11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra; Tel No. +91-22- 4058 9888; Email: kkii\_igrd@remigroup.com; Website: www.remigroup.com

We, the undersigned being key shareholders & promoters (the "Promoter Acquirers" or "Transferees") of K K Fincorp Limited ("the Company"), jointly give notice about the intention to consolidate our ownership / control over the Company from the public Shareholders in compliance with Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended (the "Delisting Regulations") and also in compliance with the Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023, as amended:

2015 issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra;

The Company is having a Certificate of Registration bearing No. 13.00282 dated March 06, 1998, issued by the Reserve Bank of India under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. The Company is authorized by Board of Directors of the Company;

have proposed the Delisting Offer:

i) Bajrang Finance Limited ("Promoter Acquirer 1"), Remi Sales and Engineering Limited ("Promoter Acquirer 2") and Remi Securities Limited ("Promoter Acquirer 3") (Promoter Acquirer 1, Promoter Acquirer 2 and Promoter Acquirer 3 are hereinafter collectively referred to as the "Promoter Acquirers" or the "Transferees" for the Delisting Offer).

Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India.

iii)The members of the Promoter Acquirers are duly authorised and hereby give this notice about their intention to acquire 42,48,800 Equity Shares representing 75.87% of the paid up equity share capital that are held by public shareholders of the Company in accordance with the Delisting Regulations

a) The proposed delisting would enable the Promoter Acquirers of the Company to obtain full ownership of the

Company which will in turn provide increased operational flexibility to support the Company's business and make investments in the Company b) The Delisting Proposal will provide the Public Shareholders an opportunity to realize immediate and certain value for their Equity Shares; and

c) The delisting of Equity Shares will result in reduction of the on-going substantial compliance costs which includes the costs associated with listing of Equity Shares such as annual listing fees and fees payable to share transfer agents or such other expenses required to be incurred as per the applicable securities law. In case any party i.e. shareholder/ creditor or any other entity having any objection in aforementioned acquisition

3<sup>™</sup> floor, Mumbai Central, Mumbai 400008 within 30 days from the date of publication of this notice. This notice is being given to ensure compliance with the provisions related to requirement of Prior Public Notice about change in control/management in terms of the Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023 and after obtaining prior

For and on behalf of K K Fincorp Limited

Shiv Kumar Sharma Whole Time Director

For and on behalf of Bajrang Finance Limited ("Promoter Acquirer 1")

Mahabir Prasad Sharma

For and on behalf of Remi Securities Limited ("Promoter Acquirer 3") Sanjay Maheshwari

Place: Mumbai

PUBLIC NOTICE

A. The Company is registered under the Companies Act, 1956 originally incorporated as "Kuber Kamal Industria Investments Limited" as a Public Limited company under the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated January 13, 1981 and Certificate of Commencement of Business dated March 09, 1981 issued by Registrar of Companies, Bombay, Maharashtra. Subsequently, name of the Company was changed to "K K Fincorp Limited" vide fresh certificate of incorporation pursuant to change of name dated February 20.

 The Registered Office of the Company is situated at Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East) C. The Company is registered with the Reserve Bank of India as Non-Banking Financial Company ("NBFC")

classified as Loan and Investment Company (Non-Accepting Deposits) as NBFC (Non-Deposit) and is duly The following Promoter Acquirers or the Transferees vide Initial Public Announcement dated October 20, 2023

ii)The registered office of all the Promoter Acquirers are situated at Plot No.11, Cama Industrial Estate

The reasons for acquisition or consolidation of shares in the Company by the Promoter Acquirers in terms of the Delisting Offer are hereunder

of shares by the Promoters Acquirers, they may submit their objection in writing to Company at their registered office or to Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, Mumbai at Mumbai Central Building,

permission of the Reserve Bank of India vide letter dated March 22, 2024.

Whole Time Director Date : March 26, 2024.

For and on behalf of Remi Sales and Engineering Limited ("Promoter Acquirer 2") **Bhagirath Singh** Director

# **P**RKSWAMY

## R K SWAMY LIMITED

(formerly known as R K SWAMY Private Limited and R.K. SWAMY BBDO Private Limited) Regd Office:No. 19, Wheatcrofts Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, Tamil Nadu, India CIN:U74300TN1973PLC006304; Website:www.rkswamy.com

PAT up by 27% YoY for 9 months

(₹ in lakhs)

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

CONSOLIDATED Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended **Particulars** No. 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2023 30-09-2023 31-03-2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations 7,351.60 8,058.31 7,725.83 21,606.70 21,522.75 29,995.80 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 762.34 1,018.12 644.45 1,848.97 1,433.49 4,258.18 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 762.34 1,018.12 644.45 1,848.97 1,433.49 4,258.18 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 561.71 740.88 475.89 1,354.95 1,064.71 3,126.00 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 544.55 724.46 1,306.72 1,034.73 3,092.66 444.57 Equity Share Capital 2,222.86 2,222.86 444.57 2,222.86 444.57 Other Equity 4,078.24 Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) (Not annualised except for year end): 1.67 1.07 3.05 2.39 7.03

Diluted (in ₹)

Basic (in ₹)

Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated and Standalone Financial Results are available on the Company's website at www.rkswamy.com and also on the website of Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India

1.67

1.07

3.05

2.39

7.03

1.26

1.26

2) These above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee at its meeting held on March 26, 2024 and approved by the Board of Directors at its meeting held on same date. The statutory auditors have expressed unmodified review opinion on results for the guarter and nine months ended December 31, 2023.

3) Based on the nature of business and past trends of the group, the results from operations of the group are not evenly distributed across

4) Th

Limited at www.nseindia.com, where the shares of the Company are listed.

he key Standalone Financial information for the quarter and nine months ended December 31, 2023 is as under:											
STANDALONE											
Particulars	Quarter Ended		1	Nine Months Ended		Year Ended					
STATE CONTRACTOR AND A STATE OF STATE O	31-12-2023 Unaudited	30-09-2023 Unaudited	31-12-2022 Unaudited	31-12-2023 Unaudited	31-12-2022 Unaudited	31-03-2023 Audited					
							Total Income (including other income)	2,934.92	3,970.79	3,644.91	9,285.16
Profit Before Tax	237.35	757.11	233.91	871.99	389.65	2,877.14					
Profit After Tax	175.61	555.35	173.08	642.04	312.16	2,154.45					

For and on behalf of the Board of Directors R K SWAMY LIMITED (formerly known as R K SWAMY Private Limited and R.K. SWAMY BBDO Private Limited)

> Srinivasan K Swamy Chairman and Managing Director DIN:00505093

R.K.SWAMY/Adfactors







Place: Mumbai

Date: March 26, 2024

## केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यों में कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल

नई दिल्ली, 26 मार्च।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश के अलग-अलग इलाकों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

हरियाणा और गोवा जैसे राज्यों में आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन में भाग लिया। मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था और इसके बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता लगातार दिल्ली समेत देश के बाकी राज्यों में केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

हरियाणा में पार्टी के कार्यकर्ता अंबाला सिटी स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय के पास इकट्टा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।



गुरुग्राम में भाजपा कार्यालय पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करते आप समर्थक।

राज्य के करनाल, रोहतक और फरीदाबाद में भी आप कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया। आप के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार

केजरीवाल सरकार के अच्छे कामों से डरी हुई है। तानाशाही मोदी सरकार आप को खत्म करना चाहती है। लेकिन आज पुरा देश ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है।

उधर, गोवा के आजाद मैदान में इंडिया

संगठनों के सदस्य एकजुट हुए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए आप को अपना समर्थन प्रदान किया। आप की गोवा इकाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के साथ इस प्रदर्शन को लेकर एक बैनर भी साझा किया। इसमें गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता भी दिखाई दिए।

आप की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के उन तमाम दावों को खारिज किया जिसमें कहा गया है कि आप ने दिल्ली की शराब नीति संबंधी कथित धन का इस्तेमाल गोवा में वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की प्रचार मुहिम में किया था। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं है कि गोवा में कोई अवैध धन भेजा गया। वो और राज्य इकाई में उनके सहयोगी किसी भी एजंसी की जांच के लिए तैयार हैं। अमित ने आरोप लगाया कि ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत गढ़ रही है। जबिक एजंसी के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं हैं।

रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष

स्वामी स्मरणानंद का निधन

रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद

बयान में कहा गया कि रामकृष्ण मठ और

रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्रीमत स्वामी

स्मरणानंद महाराज ने रात 8:14 बजे महासमाधि

ले ली। उन्हें संक्रमण के कारण 29 जनवरी को

रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती कराया

गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर श्रद्धांजलि

देते हुए लिखा कि स्वामी स्मरणानंद महाराज ने

अपना जीवन आध्यात्मिकता और सेवा के लिए

समर्पित कर दिया। उन्होंने अनगिनत दिलों और

दिमागों पर एक अमिट छाप छोड़ी।

का मंगलवार रात वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के

कोलकाता, २६ मार्च (भाषा)।



लला की मूर्ति पर फूलों की वर्षा करते पुजारी।

## ईडी ने धनशोधन मामले में 124 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कीं

नई दिल्ली, 26 मार्च (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लि. (आरएफएल) और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के तहत विभिन्न कंपनियों की 124 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं।

केंद्रीय जांच एजंसी ने मंगलवार को बयान में कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अस्थाई आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्तियां, गुरुग्राम और दिल्ली के 'पाश' इलाके में है। यह संपत्ति जमीन और फार्म हाउस के रूप में है और आरएस इन्फ्रास्ट्रक्कर प्राइवेट लि, केनवुड

मर्केंटाइल प्रा. लि, मेसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्रा लि और अन्य की हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 124.57 करोड़ रुपए है। केनवुड मर्केंटाइल प्रा लि और गुडफेथ बिल्डर्स प्रा लि, एम3एम ग्रुप से जुड़ी इकाइयां हैं। एम3एम ग्रुप गरुग्राम की रियल्टी कंपनी है। इन इकाइयों की गुरुग्राम और फरीदाबाद में 430 एकड़ जमीन है। यह संपत्ति अपराध की कमाई से अर्जित की गई जो एम3एम समूह ने विभिन्न कंपनियों के माध्यम से प्राप्त की। एजंसी ने आरोप लगाया कि एम3एम इंडिया होलिंडग्स नाम की एक भागीदारी फर्म है। इसके साझीदार रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल, आभा बंसल और पंकज

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

h उपयोग में पहले ही यहाँ नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी एकल या एक र

दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के रूप में सन्दर्भित) को नीचे दिये गये विवरणों सम्बन्धित सुचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सम्बन्धित मांग सुचना/ओं

उल्लिखित र्शांशयों का भुगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित तिथि पर विस्तृत माँग सुचना जारी की है। कथित सूचनाओं कं प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा सर्व की गयी हैं और वे अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा कथिर दायित्चधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यदि चाहें तो अधोहस्ताक्षरी से सम्बन्धित प्रति सामान्य कार

उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों)

कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा क्रियान्वित ऋणे अनुबन्ध एवं अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित नीचे कॉर्

घ) में उल्लिखित सम्बन्धित तिथियों से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे वर्णित भावी ब्याज सहित अपने ना

के सम्मुख नीचे सुचित राशियों का सम्बन्धित सुचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने

लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित प्रतिभृत आस्ति(याँ) क्रमशः कि दायित्वधारी(याँ) द्वारा एचएचएफएल के पास बंधक रखी गयी हैं।

**तिभृत संपत्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण:**- एक आवासीय फ्लैट नंबर युजीएफ-001, ऊपरी भृतल ब

प्रोर (छत के अधिकार के बिना) क्षेत्रफल 73 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 43 पर निर्मित, खसरा नंबर 157 ए, श्री साल सिटी हद

nia- शाहबेली परगना और तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश पर स्थित। फ्लैट की सीमाएं: उत्तर: फ्लैट नं

आवासीय दूसरी मंजिल। प्लॉट की सीमाः उत्तर- प्लॉट नंबर 130, पूर्व- प्लॉट नंबर 171, दक्षिण- प्लॉट नंबर 128, पश्चिम

\*तथा उपर्युक्त सम्बन्धित मांग सूचना में अधिक रमष्ट वर्णित के अनुसार भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकरिसक व्यय लागतें, भुगतान तथा/अथवा चसूली की तिथि तक उपचित प्रभार आदि। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसा-

एचएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे, तो एचएचएफएल लागतों तथा परिणामों के लिए कथि दायित्चधारी(वॉ)/विधिक उत्तराधिकारी(वॉ)/विधिक प्रतिनिधि(वॉ) के पूर्ण जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4

कथित दायित्वधारी(वॉ)/विधिक उत्तराधिकारी(वॉ)/विधिक प्रतिनिधि(वॉ) को एचएचएफएल वी पूर्व लिखित अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(वॉ)/अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण करने से निषिद्ध किया जाता

है। कोई व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने का प्रयास करू

प्रपत्र–'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेत् आमंत्रण

<u>पेंक सिटी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड- सड़क बुनियादी ढांचे के लिए एसपीवी</u>

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

ह./- अधिकृत प्राधिकारी कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्यक्त प्रतिभत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

कुल बकाया देय रु.\*

गण्टों के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

विधिक उत्तराधिकारी((यों)/विधिक

पूजीएफ 002, पूर्वः सड़क 22 फीट चौड़ी, दक्षिणः सड़क 8.25 फीट चौड़ी, पश्चिमः अन्य प्लॉट

प्रतिनिधि(यों) के नाम

ऋण खाता

तिथि : 27.03.2024 स्थान : दिल्ली

## दिल्ली से औरैया लाए जा रहे अपहरण व हत्या के आठ आरोपी मुठभेड़ में घायल



औरैया, २६ मार्च (एजंसी)।

एरवाकटरा थाना क्षेत्र से शनिवार दोपहर अपहृत किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने आठ हत्यारोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

एसपी ने बताया कि आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करके औरैया लाया जा रहा था। इसी दौरान उन्हें छुड़ाने के लिए बाउखेड़ा के जंगल में पुलिस की गाड़ियों पर कुछ लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी गोलीबारी की। तभी मौका पाकर गाड़ी में मौजूद चार आरोपियों ने भी भागने का प्रयास किया। पुलिस की गोलीबारी में सभी आठ आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने सभी को उपचार के लिए उच्च सेंटर भेज दिया।

एसपी चारू निगम ने बताया कि फिरौती के लिए बदमाशों ने पूरी योजना बनाई थी। इसमें मुख्य आरोपी ने अपने साथियों आशीष, अंकित, शोभन यादव के साथ मिलकर पुलिस टीम पर गोलीबारी की थी। वहीं, दिल्ली से पकड़कर लाए गए अवधेश कुमार मिश्रा, दीपक गुप्ता, जितन दिवाकर व रवि शामिल हैं। एरवाकटरा थाना क्षेत्र के गांव उमरेन से शनिवार को कस्बा निवासी सराफ शकील का नाबालिग बेटा शबहान का अपहरण हो गया था। उसकी खोज में एक टीम दिल्ली पहुंची, जहां पीडागढ़ी सांई मंदिर के पास खुदी में नाबालिंग का शव एक सूटकेस में बंद मिला।

## शुद्धिपत्र

कृपया स्पेक्ट्रम एयरो प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी प्रक्रिया के अंतर्गत) से संबंधित प्रपत्र ए के 23.3.24 को पूर्व का प्रकाशन देखें। कॉलम 11 के अंतर्गत वर्णित तिथि 4.4.24 (न कि 20.4.24) पढ़ें। दावे 4.4.2024 तक जमा की जाएगी न कि 20.4.24 तक जो 23.3.24 को प्रपत्र ए के पूर्व के प्रकाशन में अनजाने में अन्यत्र कहीं

तिथिः 25.03.24 दिवाला प्रस्ताव कर्मी :थानः गडगाँव स्पे**क्टम एयरो प्राईवेट लिमिटे**ड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 िकस्पनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत . कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा

कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में i. मंगला कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः डी-194, पुण्डरीक विहा-पीतमपुरा, उत्तर दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110034 में है, के

एतदृद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''**दिर्ल्ल** राज्य'' से ''**हरियाणा राज्य**'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **मंगलवार, 26 मार्च, 2**024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से पदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय नेदेशक, उत्तरी क्षेत्र, पताः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: पंजीकृत कार्यालय का पताः 1148, 11वां तल, टावर बी2, स्पेज 1 टेक पार्क, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गाँव, हरियाणा

122018 तिथि: 26.03.2024 हस्ता./ DIN: 01059260 पताः 40/1, 2रा तल, प्लेटिनम ग्रीन्स अर्डी सिटी, सेक्टर-52, गुड़गाँव, हरियाणा-12201 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा

## अरुणाचल पर चीन के दावे का सख्ती से खंडन करे सरकार

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 26 मार्च

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है और मोदी सरकार को चीन द्वारा इस राज्य पर दावा किए जाने का बहुत सख्ती से खंडन करना चाहिए। चीन ने सोमवार को एक बार फिर यह

दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश 'हमेशा' उसका क्षेत्र रहा है। हालांकि भारत ने बेजिंग के दावे को 'बेतुका' और 'हास्यास्पद' बताकर खारिज कर दिया।

खरगे ने एक्स पर लिखा कि किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश पर चीन के किसी भी दावे की कड़ी निंदा और विरोध करती है। यह एक महीने में चौथी बार है, जब चीन ने पूरी तरह से हास्यास्पद और बेतुके दावे किए हैं। खरगे का कहना है कि स्थानों का नाम बदलकर और दसरे देशों से संबंधित क्षेत्रों के नक्शे दोबारा

बनाकर बेतुके दावे करने में चीन का कीर्तिमान सर्वविदित है। उन्होंने कहा कि दलीय राजनीति से इतर हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में

> एक साथ हैं। हालांकि, यह भी रेखांकित किया जा सकता है कि चीन का रवैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी 'लाल आंख' दिखाने वाली कार्रवाई नहीं करने और चीन को क्लीन चिट देने का परिणाम है।

चीन ने कब्जा किया हुआ है।

## K K FINCORP LIMITED Corporate Identification Number ("CIN"): L65990MH1981PLC023696

Registered Office: Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai – 400 063, Maharashtra; Tel No. +91-22- 4058 9888; Email: kkii\_igrd@remigroup.com; Website: www.remigroup.com

## **PUBLIC NOTICE**

We, the undersigned being key shareholders & promoters (the "Promoter Acquirers" or "Transferees") of K I Fincorp Limited ("the Company"), jointly give notice about the intention to consolidate our ownership / control over the Company from the public Shareholders in compliance with Securities and Exchange Board of India Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended (the "Delisting Regulations") and also in compliance with the Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023, as amended:

v. The Company is registered under the Companies Act, 1956 originally incorporated as "Kuber Kamal Industria Investments Limited" as a Public Limited company under the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated January 13, 1981 and Certificate of Commencement of Business dated March 09, 1981 issued by Registrar of Companies, Bombay, Maharashtra. Subsequently, name of the Company was changed to "K K Fincorp Limited" vide fresh certificate of incorporation pursuant to change of name dated February 20, 2015 issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra;

The Registered Office of the Company is situated at Plot No.11, Cama Industrial Estate, Goregaon (East) Mumbai - 400 063, Maharashtra: The Company is registered with the Reserve Bank of India as Non-Banking Financial Company ("NBFC")

The Company is having a Certificate of Registration bearing No. 13.00282 dated March 06, 1998, issued by the Reserve Bank of India under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. The Company is classified as Loan and Investment Company (Non-Accepting Deposits) as NBFC (Non-Deposit) and is duly authorized by Board of Directors of the Company; . The following Promoter Acquirers or the Transferees vide Initial Public Announcement dated October 20, 2023

have proposed the Delisting Offer:

i) Bajrang Finance Limited ("Promoter Acquirer 1"), Remi Sales and Engineering Limited ("Promote Acquirer 2") and Remi Securities Limited ("Promoter Acquirer 3") (Promoter Acquirer 1, Promoter Acquirer 2 and Promoter Acquirer 3 are hereinafter collectively referred to as the "Promoter Acquirers" or the "Transferees" for the Delisting Offer). ii)The registered office of all the Promoter Acquirers are situated at Plot No.11, Cama Industrial Estate

Goregaon (East), Mumbai – 400 063, Maharashtra, India. iii) The members of the Promoter Acquirers are duly authorised and hereby give this notice about their intention

to acquire 42,48,800 Equity Shares representing 75.87% of the paid up equity share capital that are held by public shareholders of the Company in accordance with the Delisting Regulations he reasons for acquisition or consolidation of shares in the Company by the Promoter Acquirers in terms of the

) The proposed delisting would enable the Promoter Acquirers of the Company to obtain full ownership of the

Company which will in turn provide increased operational flexibility to support the Company's business and make investments in the Company; ) The Delisting Proposal will provide the Public Shareholders an opportunity to realize immediate and certain value for their Equity Shares; and

The delisting of Equity Shares will result in reduction of the on-going substantial compliance costs which includes the costs associated with listing of Equity Shares such as annual listing fees and fees payable to share transfer agents or such other expenses required to be incurred as per the applicable securities law. case any party i.e. shareholder/ creditor or any other entity having any objection in aforementioned acquisitio of shares by the Promoters Acquirers, they may submit their objection in writing to Company at their registered

floor, Mumbai Central, Mumbai 400008 within 30 days from the date of publication of this notice. This notice is being given to ensure compliance with the provisions related to requirement of Prior Public Notice about change in control/management in terms of the Master Direction - Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023 dated October 19, 2023 and after obtaining prior ermission of the Reserve Bank of India vide letter dated March 22, 2024.

Sd/-

Director

For and on behalf of Remi Sales and Engineering Limited

("Promoter Acquirer 2")

**Bhagirath Singh** 

office or to Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, Mumbai at Mumbai Central Building,

For and on behalf of K K Fincorp Limited

Shiv Kumar Sharma Whole Time Director

For and on behalf of Bajrang Finance Limited

("Promoter Acquirer 1")

Mahabir Prasad Sharma Director

For and on behalf of Remi Securities Limited

("Promoter Acquirer 3") Sanjay Maheshwari Whole Time Director

Place: Mumbai Date: March 26, 2024

कारण निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। मिशन ने एक बयान में कहा कि वह 2017 में रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष बने थे।

खरगे ने दावा किया कि चाहे अरुणाचल प्रदेश के करीब सीमा पर गांव बसाना हो या सीमा के पास रहने वाले हमारे लोगों का अपहरण करना हो, मोदी सरकार की 'प्लीज चाइना पालिसी' (चीन को खुश करने की नीति) ने अरुणाचल में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।' कहा कि सरकार को चीन के दावों का सख्ती से खंडन करना चाहिए। उधर, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। इसके पहले भी देश की जनता ने देखा-सना कि भारत की हजारों स्क्रायर किलोमीटर जमीन पर

## (दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहतं श्री कपिल गुप्ता (पर्सनल गारंटर) मेसर्स डेलट्रॉनिक्स

दिल्ली ने आईबीसी. 2016 की धारा 100 के तहत. श्री कपिल गप्ता (व्यक्तिगत गारंटर) मेसर विहार, नई दिल्ली–110076 में निवासरतय सोनिया फार्म 66–67, जोना रोड, छतरपुर, नइ दिल्ली-110074, ई-3, सेक्टर-59, नोएडा, युपी-201301 और बी-12, सेक्टर 14, नोएड यपी—201301 दिवाला समाधान प्रक्रिया शरू करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति माननी एए की वेबसाइट पर अपलोड की गई और आरपी को 22.03'2024 को भेजी गई)

17.04.2024 (नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिन) तक या उससे पहले सबुत के साथ अपन दावे श्रीमान हरविंदर सिंह, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ... गक्धानों के तहत माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, बेंच– II द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसव कार्यालय 11—सीएससी, डीडीए मार्केट, ए ब्लॉक, सरस्वती विहार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधा**-**क्षेत्र दिल्ली —110034, में है को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। मेल आईडीpirp.deltronix@gmail.com. ਵੈ |

नेनदारों को फॉर्म—बी में भारतीय दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लि व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तहर निर्धारित रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17.04.2024 (नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिन) होगी। लेनदार अपने दा कर सकते हैं।

प्रस्तृत करने के लिए निर्धारित https://ibbi.gov.in/en/home/downloads. से डाउनलोड किया जा सकता है:

2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना या कारावास होगा। कृपया दावा प्रपत्र में सक्रिय संपर्क विवरण का उल्लेख करें ताकि दावे से संबंधित किसी भी प्रश्

> श्री हरविंदर सिंह श्री कपिल गुप्ता, मेसर्स डेल्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर

ईमेल: harvinder@akgandassociates.com, pirp.deltronix@gmail.com

### सार्वजनिक सूचना (दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत) श्री दिपाली गुप्ता (पर्सनल गारंटर) मेसर्स डेलट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, बेंच- II, नः देल्ली ने आईबीसी. 2016 की धारा 100 के तहत. श्री दिपाली गप्ता (व्यक्तिगत गारंटर) मेसर . हेल्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड), के खिलाफ आदेश दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से ए–323, सरित वेहार, नई दिल्ली—110076 में निवासरतय सोनिया फार्म 66—67, जोना रोड, छतरपुर, नई दिल्ली—110074, ई—3, सेक्टर—59, नोएडा, यूपी—201301 और बी—12, सेक्टर 14, नोएड यूपी-201301 दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रति माननी एए की वेबसाइट पर अपलोड की गई और आरपी को 22.03'2024 को भेजी गई)

श्री दिपाली गुप्ता के लेनदारों को नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिन या उससे पहले यान 17.04.2024 (नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिन) तक या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे श्रीमान हरविंदर सिंह, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 व गर्यालय 11—सीएससी, डीडीए मार्केट, ए ब्लॉक, सरस्वती विहार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधान क्षेत्र दिल्ली –110034, में है , को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। मेल आईडीpirp.deltronix@gmail.com. ਵੈ |

नेनदारों को फॉर्म–बी में भारतीय दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लि यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तह निर्धारित रिजॉल्युशन प्रोफेशनल को अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। लेनदारों के दावे प्रस्तुत कर की अंतिम तिथि 17.04.2024 (नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिन) होगी। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से, या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत

दावे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित https://ibbi.gov.in/en/home/downloads. से डाउनलोड किया जा सकता है: ध्यान दें: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहित 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना या कारावास होगा। कृपया दावा प्रपत्र में सक्रिय संपर्क विवरण का उल्लेख करें ताकि दावे से संबंधित किसी भी प्रश्न का तुरंत समाधान किया जा सके।

> श्री हरविंदर सिंह (पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00463/2017-18/10806) एएफए 10.05.2024 तक वैध है दिवाला समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर श्री दिपाली गुप्ता, मेसर्स डेल्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर (सीआईएन U51909DL1984PLC018787) पताः 11 सीएससी, डीडीए मार्केट, ए ब्लॉक, सरस्वती विहार नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110034

ईमेलः harvinder@akgandassociates.com, pirp.deltronix@gmail.cor

दिनांक: 27.03.2024

## सार्वजनिक सूचना

श्री कपिल गप्ता के लेनदारों को नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिन या उससे पहले यान

पान दें: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहित

(पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00463/2017-18/10806) एएफए 10.05.2024 तक वैध है दिवाला समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर (सीआईएन U51909DL1984PLC018787) पताः 11 सीएससी, डीडीए मार्केट, ए ब्लॉक, सरस्वती विहार,

नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110034

### प्रासंगिक विवरण कॉर्पोरेट देनदार का नाम पिंक सिटी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड | साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. | सीआईएन:U45203TN2008PTC067179 पंजीकत कार्यालय का पता

पंजी. पताः फ्लैट नंबर 201, जयम ब्लॉक, दसरी मंजिल **प्रधान कार्योलयः** ३७४, सैक्टर १, आईएमटी मानेसर हरियाणा — 122052 www.pinkcityexpressway.com 3. विबसाइट का यूआरएल

उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश खड़ाब, कोठपुतली, राजस्थान अचल संपत्तियां स्थित हैं

कंपनी एनएचएआई के साथ रियायतग्राही समझौते के तहत हरियाणा / राजस्थान राज्य में एनएच —8 के गुड़गांव—कोटपुतली—जयपुर खंड के लिए KM 42.70 से KM 273 तक चार ्निर्भ के हुनाय-काट्युराला-जिय्युर खंड के लिए का स्थापन के लिए के स्थापना के लिए बनाई गई एक एसपीवी है। पीसीईपीएल ने परियोजना के निष्पादन के लिए खंडब, कोटपुतली, राजस्थान में 5.37 हेक्टेयर सूमि पर एक पत्थर पेराई इकाई की स्थापना की। एनएचएआई के साथ रियायतग्राही समझौता जून 2022 में बंद कर दिया गया था और वर्तमान में कंपनी एनएचएआई के साथ सेवाओं रियायतग्राही समझौते और राजस्थान सरकार के साथ राज्य समर्थन समझौते से उत्पन्न विभिन्न दावों लगभग 7000 करोड़ रुपये की मध्यस्थता कार्यवाही में आगे बढ़ रही है ।

वित्तीय वर्ष 2022—23 — रु. 48.48 करोड़ (अनंतिम) पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं कर्मचारियों / कामगार की संख्या कर्मचारी — 5, श्रमिक — शून्य ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है:

विवरण (अनसची के साथ), लेनदारों ip.pinkcity@gmail.com/ की सची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं bajaj.vikram@gmail.com के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है:

समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां ip.pinkcity@gmail.com/ उपलब्ध है bajaj.vikram@gmail.com 0. अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु | 09 अप्रै ल 2024 (बढ़ाया गयां)

संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम 19 अप्रैल 2024 सूची जारी करने की तिथि अंतरिम सची के बारे में आपत्तिय 24 अप्रैल 2024 प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि

८. संभावित समाधान आवेदकों र्क 04 मई 2024 अंतिम सूची जारी करने की तिथि संभावित समाधान आवेदकों को सूचना | 09 मई 2024

ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि . समाधान योजनाएं जमा करने की 08 जून 2024 अंतिम तिथि

ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ip.pinkcity@gmail.com |ईमेल आईडी

विक्रम बजाज पंजीकरण सं : IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-17/10003 तिथि: 27.03.2024 पताः २१४, टॉवर ए, स्पेज़एज, सैक्टर ४७, गूड़गांव — 122018 पिंक सिटी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड के लिए